



## कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

### प्रेस-नोट

दिनांक-16.07.2022

दिनांक-15.07.2022 को थाना रामनगर पुलिस द्वारा शातिर जालसाज वांछित अभियुक्त विशाल सिंह को गिरफ्तार किया गया ।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय वाराणसी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में, श्रीमान् पुलिस उपायुक्त काशी जोन महोदय के निर्देशन में व सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली महोदय के पर्यवेक्षण में थाना रामनगर पुलिस टीम द्वारा थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 0067/2022 धारा 406 / 419 / 420 / 467 / 468 / 471 भा0द0वि0 थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी से सम्बन्धित वांछित उक्त घटना में शामिल मुख्य अभियुक्त विशाल सिंह पुत्र स्व0 अशोक कुमार सिंह निवासी मलहथ थाना फूलपुर जनपद वाराणसी ग्रामीण उम्र 35 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर विशाल सिंह को लंका मैदान के पास से दिनांक 15/07/2022 को समय 15.45 बजे गिरफ्तार कर हिरासत पुलिस में लिया गया । अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

#### पंजीकृत अभियोग:-

1. मु0अ0सं0 0067/2022 धारा 406/419/420/467/468/471 भा0द0वि0 थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी ।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय:- स्थान- लंका मैदान थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी, दिनांक- 15.07.2022, समय 15.45 बजे ।

विवरण अभियुक्तगण:- विशाल सिंह पुत्र स्व0 अशोक कुमार सिंह निवासी मलहथ थाना फूलपुर जनपद वाराणसी ग्रामीण उम्र 35 वर्ष ।

#### संक्षिप्त विवरण:-

विपक्षीगणों द्वारा षणयंत्र करके फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड व जमीन का दस्तावेज तैयार करके दूसरी जमीन दिखाकर आवेदक से 17 लाख रुपये ले लेना व मांगने पर 30 हजार वापस करना और 16 लाख 70 हजार रूपया न देना ।

#### अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 0067/2022 धारा 406/419/420/467/468/471 भा0द0वि0 थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी ।
2. मु0अ0सं0-0539 / 2022 धारा 354 / 506 / 507 भा0द0वि0 थाना मण्डुवाडीह कमिश्नरेट वाराणसी
3. मु0अ0सं0-0478 / 2020 धारा 323 / 363 / 376 / 511 भा0द0वि0 थाना रोहनियां वाराणसी ग्रामीण ।

गिरफ्तारी/ बरामदगी टीम थाना रामनगर वाराणसी:-

1. उ0नि0 श्रीप्रकाश सिंह थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी ।
2. का0 प्रेमचन्द्र मौर्या थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी ।
3. का0 रोशन थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी ।
4. का0 कुन्नु यादव थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी ।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त,  
जोन-काशी, कमिश्नरेट  
वाराणसी ।